

आत्महत्या की रोकथाम में सकारात्मक सौंच का अहम रोल

कानपुर,10 सितम्बर। आईएमए सेमिनार हॉल में विश्व आत्महत्या निवारण जागरूकता दिवस मनाया गया। इसमें डाक्टरों ने आत्महत्या की अवधारणा बदलने को लेकर चर्चा की। अध्यक्ष डा नंदनी रस्तोगी ने स्पष्ट किया कि आत्महत्या की रोकथाम एक साझा प्रतिबद्धता है,जो हमे सीमाओं

आईएमए सेमिनार हॉल में विश्व आत्महत्या निवारण जागरूकता दिवस पर डाक्टरों ने की चर्चा

में आत्महत्या की रोकथाम में आशा,समझदारी व सकारात्मक सौंच का अहम रोल है। सचिव डा विकास मिश्रा ने बताया वे राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीतियों के विकास की वकालत करते हैं। यह सुनिश्चत करना बेहद अहम है कि संकट एवं अस्थिरता से प्रभावित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल व सुरुक्षात्मक सहायता उपलब्ध हो। डा मधुकर कटियार के मुताबिक आत्महत्या की रोकथाम में सकारात्मक कहानियों का भी अहम रोल है। जिसके जरिये लोगों में आत्महत्या की सौंच को आसानी से बदला जा सकता है। प्रमुख रूप से डा कुणाल सहाय व अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।

किशोर साथियों की भागीदारी के साथ अभिभावकों की सक्रिय भूमिका आवश्यक

कानपुर, 10 सितम्बर। सीएसजेएमयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज तथा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आईयूएसी) की ओर से आज एक दिवसीय विशेष कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आस्ट्रेलिया से आई एलिस एटकिंस ने अनुभव और वैश्विक दृष्टिकोण से छात्रों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त संदेश, किशोर साथियों की भागीदारी और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका लंबी अवधि तक स्थायी बदलाव लाने में कारगर होती है। भारत में एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार 15-19 वर्ष की लगभग 57 प्रतिशत किशोरियाँ एनीमिया से प्रभावित हैं, जो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। मिस एटकिन्स ने कहाकि केवल जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समुदाय के अनुभवों को सुनना, सहेली क्लब, शिक्षकों एवं समुदाय की भागीदारी, स्थानीय महिला जन प्रतिनिधियों का समर्थन, तथा डिजिटल और ऑफलाइन हस्तक्षेप का



दीप जलाते मुख्य अतिथि एलिस एटकिन्स, डा. संदीप कुमार सिंह व अन्य।

सामाजिक विकास, और आर्थिक उत्पादकता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। एमएसडब्ल्यू और एमपीएच छात्रों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि अकादमिक ज्ञान और फील्ड प्रैक्टिस मिलकर वास्तविक सामुदायिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कार्यक्रम में सवाल-जवाब सत्र में एनीमिया रोकने, पारंपरिक धारणाओं को बदलने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान निदेशक डॉ. किरण झा, आयोजन सचिव डॉ. सत्येंद्र एस. चौहान एवं डॉ. अभिषेक के. मिश्रा आदि मौजूद रहे।

80 फीट ऊंचा रावण का पुतला होगा आकर्षण का केंद्र

श्री रामलीला सोसाइटी, परेड के विजयादशमी पर्व का श्रीराम कथा के साथ आगाज आज
(आज समाचार सेवा)
कानपुर, 10 सितम्बर। श्री रामलीला सोसाइटी (रंज.) परेड के 149वें विजयादशमी पर्व का आगाज 11 सितम्बर को श्रीराम कथा के साथ होने जा रहा है, जिसका आयोजन मर्चेंट चैंबर सभागार, सिविल लाईंस में प्रतिदिन राति 7.00 बजे से होगा। यहां 19 सितम्बर तक पूज्यपाद दीदी मां मंदाकिनी श्री रामकिंकर जी के मुखारबिंदु से रामभक्त कथा का श्रवण कर सकेंगे। इसके उपरांत 22 सितम्बर की सुबह श्री रामलीला भवन में 'मुकुट पूजन' से रामलीला के आयोजनों का प्रारंभ होगा। इसमे प्रतिवर्ष की भांति प्रभु श्रीराम की शोभायाता अपने पूर्व निर्धारित मार्गों से रामलीला भवन से श्री रामलीला ग्राउंड, परेड पहुंचेगी, जहां प्रभु श्रीराम की लीलाओं का मंचन मयूर के महेश दत्त चव्हेदी (व्यास जी) के निर्देशन में उनकी मंडली के द्वारा होगा। 25 सितम्बर को श्रीराम बारात-श्रीराम विवाह का मुख्य आकर्षण शोभायाता व लीला स्थल पर भी रामभक्तों को देखने को मिलेगा। 29 सितंबर को लंका दहन, 30 को कुम्भकरण वध, एक अक्टूबर को मेघनाद वध व दो अक्टूबर को विजयादशमी पर्व (दशहरा) तक चारों दिन भव्य इको फ्रेंडली आतिशबाजी जयपुर के आतिशबाजों के द्वारा, लेजर शो व



विजयादशमी पर्व के कार्यक्रमों की जानकारी देते सोसाइटी के पदाधिकारी।

सोसाइटी के पदाधिकारियों ने विजयादशमी से भी दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम, पुलिस व यातायात विभाग, जलकल, मार्ग प्रकाश व केस्को से पूर्ण सहयोग की उम्मीद जतायी है। प्रेस वार्ता में सोसाइटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव गर्ग, प्रधानमंत्री कमल किशोर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पवन गर्ग, मंत्री अमरनाथ मेहरोला, पवन अग्रवाल, आलोक अग्रवाल व उपाध्यक्ष लालजी शुक्ला, वीरेंद्र अग्रवाल एवं प्रवीण अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

सोना खरीद में नगद सीमा एक लाख की जाये

कानपुर, 10 सितम्बर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्यसमिति बैठक एटा के जिला पंचायत परिसर के जनेश्वर मिश्र हाल में आयोजित हुई। कानपुर से सम्मिलित हुए पदाधिकारियों ने समस्याओं से संबंधित ज्ञान प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा, चेयरमैन महेंद्र मयूर, प्रदेश महामंत्री डॉ दिलीप सेठ एवं राजेंद्र गुप्ता को दिया। प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकिशोर मिश्रा ने कहा कि सोने की नकद खरीद की सीमा अधिकतम 20 हजार रुपये तब थी, जब सोना 50 हजार प्रति दस ग्राम से भी कम थाया। लेकिन सोने का भाव वर्तमान में 1,12,000 प्रति 10 ग्राम से भी अधिक हो गया है। वर्तमान में सोने की नाद खरीद सीमा 10 हजार है। जिसको बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाये। प्रदेश युवा महामंत्री संत मिश्रा ने कहा कि छोटा व्यापारी वर्तमान समय में ऑनलाइन व्यापार के कारण पूरी तरह प्रभावित है, संगठन द्वारा इसके लिए चरणबद्ध तरीके से इसके लिए गुगलिंग एप्ट बनाये जाने को लेकर कदम उठाये जाने चाहिए। बैठक में सुनील पांडे, मनीष त्रिपाठी, राकेश सिंह, अंकित मिश्रा ऋतिक, आशुतोष द्विवेदी, सौरभ आदि मौजूद रहे।

सहकारी समितियों में सदस्यता व बैंक खाता खोलने का महाअभियान 12 से

कानपुर 10 सितम्बर। उप्रप्रशासन के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि सहकारी समितियों का महासदस्यता अभियान एवं बैंक खाता खोले जाने का महाअभियान 12 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसके लिए जनपद कानपुर कानपुर देहात की सहकारी समितियों के अध्यक्षों ,समिति सचिवों ,जिला सहकारी बैंक लि.कानपुर की शाखाओं के प्रबंधकों ,समस्त विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी सहकारिता ,अपर जिला सहकारी अधिकारी की आवश्यक बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन जिला सहकारी बैंक लि.कानपुर के अध्यक्ष एसडी सिंह परिहार की अध्यक्षता में जिला सहकारी बैंक लि.कानपुर मुख्यालय 30डी ओ ब्लॉक आलू मण्डी किटवई नगर में किया गया। जिसमें अध्यक्ष एसडी सिंह परिहार .उपाध्यक्ष रामेन्द्र नाथ संचान, सदस्यता महाअभियान प्रभारी कानपुर देहात हर्षवर्धन



कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि व अन्य।

बनाने एवं मात 200 रुपये जमा कर बैंक की शाखा में बचत खाता खोला जाएगा। बैठक में बैंक संचालकगण के साथ-साथ नेरेंद्र वर्मा सीईओ जिला सहोबैंक राहुल यादव, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड कानपुर प्रवीण कुमार सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता जनपद कानपुर देहात उममहाप्रबंधक मिहिर मिश्र आदि अधिकारी मौजूद रहें।

द्वारकाधीश के दर्शन कर काशी रुद्रास ने शुरू किया ट्रॉफी टूर

यूपी टी-20 लीग जीतने के बाद गुरुवार को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर जायेगी

(खेल संवाददाता)

कानपुर, 10 सितम्बर। यूपी टी-20 लीग के तीसरे सीजन की विजेता काशी रुद्रास ने शहर के प्रतिष्ठित द्वारकाधीश मंदिर में आशीर्वाद लेकर अपना ट्रॉफी टूर प्रारम्भ किया। टीम गुरुवार को वाराणसी स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करेगी। गौरतलब है कि यूपी लीग के कुल तीन सीजन में काशी टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। टीम ने ग्रीन पार्क में हुए पहले सीजन में भी खिताब जीता था। काशी रुद्रास टीम का मालिकाना हक शहर के प्रतिष्ठित जेके ग्रुप के पास है। इसी के चलते टीम ने अपने ट्रॉफी टूर अभियान का आगाज बुधवार को शहर से किया। टीम द्वारकाधीश मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद कमला टॉवर स्थित अपने मुख्यालय पहुँची। जहां मौजूद टीम मैनेजमेंट के गौरव बत्रा और हिमांशु ने बताया कि इस सीजन में



मंदिर में दर्शन करते खिलाड़ी।

से है और हमने यहीं पर लगातार अभ्यास कर सफलता हासिल की है। इसलिए वाराणसी स्टेडियम का सवाल नहीं उठता। हालांकि वहां यदि अगले सीजन के मैच आयोजित हुए तो जरूर खेलना चाहेगे।

टीम का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। कप्तान करन शर्मा जहां लीग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने वहीं शिवम मावी ने गेंदबाजों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया। यूपी लीग के चौथे सीजन में टीमों की संख्या बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह काम लीग काउंसिल का है। हालांकि उम्मीद है कि अगले सीजन में आठ टीमें खेल सकती हैं। यद्यपि हम चुनौती से निपटने के लिए भी तैयार हैं। वाराणसी में यूपीसीए द्वारा बनाया जा रहा नया क्रिकेट स्टेडियम इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ऐसी सूरत में उसे अपना होम ग्राउंड बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी टीम कानपुर

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED IN COMPLAINE WITH THE CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURE AND REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT



ANUBHAV PLAST LIMITED

Our Company was incorporated as "Anubhav Plast Private Limited" at Uttar Pradesh as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated January 01, 1987, issued by the Registrar of Companies ("ROC"), Uttar Pradesh. Subsequently, our Company was converted to a public limited company and the name of our Company changed to "Anubhav Plast Limited" and a fresh certificate of incorporation dated January 08, 2025 was issued by the RoC, Kanpur. The CIN of our Company is U25202UP1987PLC008460. For details in relation to changes in the registered office of our Company, see

"History and Certain Corporate Matters" on page 195 of the draft red herring prospectus (DRHP) dated September 09, 2025.

Registered Office: 7/41 A, Basement, Basant Tower, Tilak Nagar, Swarup Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, India, 208002, Contact Person: Siddharth Tiwari, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail id: cs@anubhavpole.com, Website: www.anubhavpole.com

OUR PROMOTERS:

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 30,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF ANUBHAV PLAST LIMITED ("COMPANY" / "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•](-) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•](-) PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] (+) LAKHS ("ISSUE"), OF WHICH [•] (+) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] (-) PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] (-) PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] (+) LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.e. NET ISSUE OF [•] (+) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ [•] (-) PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] (-) PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] (+) LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [•] (%) AND [•] %, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITION OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE SME") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50 % of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs" (the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-institutional Bidders of which (a) one-third of portion shall be reserved for applicants with application size of more than two lots and up to ₹10,00,000; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹10,00,000, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-institutional Bidders, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Bidders who applies for minimum application size in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID for UPI Bidder using the UPI Mechanism) (defined hereinafter), in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 305 of this Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with the Regulation 247 of SEBI (ICDR) Regulations. 2018 and SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations. 2025

2025 vide notification dated March 03rd 2025, and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME companies to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake Initial public offering of its Equity Shares pursuant to the offer and DRHP dated September 09, 2025 which has been filed with the SME Platform of BSE Limited (BSE SME).

Pursuant to SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025 on March 03rd, 2025 and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME companies for fulfilling all additional eligibility criteria, the DRHP filed with the SME Platform of BSE Limited (BSE SME) shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the BSE at www.bsesme.com and the website of the Company at www.anubhavpole.com and at the website of BRLM i.e. CapitalSquare Advisors Private Limited at www.capitalsquare.in. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with the SME Platform of BSE Limited (BSE SME) with respect to disclosures made in DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to Stock Exchange, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by BSE SME, and/or our Company and/or Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM in relation to the offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with BSE SME.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issuer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' on page 28. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the Red Herring Prospectus ('RHP') has been filed with ROC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited.

For details of the main objects of our Company as contained an its Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 195. The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them of our Company, please see "Capital Structure" beginning on page 86.

Book Running Lead Manager to the Issue	Registrar to the Issue
CAPITALSQUARE® Teaming together to create value CapitalSquare Advisors Private Limited Address:208, 2nd Floor, AARPEE Centre, MIDC Road No.11, CTS70, Andheri - East, Mumbai – 400093 (India) Tel No.- 022-66840999/ 022-6684 9946 Email: mb@capitalsquare.in Website: www.capitalsquare.in Contact Person: Viveka Singhal / Pratima Keshari SEBI Registration number: INM009012219 CIN: U69999MH2008PTC187863	BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Bigshare Services Private Limited Address: Office no S6-2 ,6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093 Maharashtra, India. Tel No.: +91 – 22 – 6263 8200 Email: ipo@bigshareonline.com Contact Person: Mr. Vinayak Morbale SEBI Registration number: INR000001385 CIN: U99999MH11994PTC0876534
Company Secretary and Compliance Officer: Siddharth Tiwari [Tel. No: +91- 7526065186 Website: www.anubhavpole.com E-mail: cs@anubhavpole.com]	
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall the same meaning as ascribed to them in the DRHP.	
For Anubhav Plast Limited On Behalf of the Board of Directors Sd/- Siddharth Tiwari Company Secretary and Compliance Officer	
Anubhav Plast Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipts of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SME Platform of BSE Limited (BSE SME). The DRHP is available on the website of BSE at respectively and is available on the website of the company at www.anubhavpole.com and at the website of the BRLM i.e. CapitalSquare Advisors Private Limited at www.capitalsquare.in . Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating such risk, see the section titled "Risk Factors" that will be included in the RHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S Securities Act of 1933 (the 'U. S. Securities Act') or any state securities law in United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the U. S. Securities Act and applicable U. S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance of Regulations and the applicable laws of each jurisdiction where such others and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.	